

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Office: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Dharuhera Rewari, Haryana-123401, Tel.: 91-7419885077 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com, Website: www.newtimeinfra.in CIN: L24239HR1984PLC040797

Ref No.: NIL/BSE/46/2022-23 Date: 17/11/2022

To,

The Manager BSE Limited, Corporate Relationship Department, Phirozee Jeejee Bhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

BSE SECURITY CODE: 531959

<u>Subject: Submission of Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of Un-Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and Six Months ended on September 30, 2022</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of Un-Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and six months ended on September 30, 2022 published in the newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on November 15, 2022.

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website.

You are requested to take note of the same and oblige.

Thanking You,

For Newtime Infrastructure Limited

Malti Devi (Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Stated Above

IDFC FIRST

FINANCIAL EXPRESS

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिध बैंक D-6. SHOPPING CENTRE-2. VASANT VIHAR, NEW DELHI-110057

Phone: 011-26141733, E-mail: d0487@psb.co.in

Shopping Center 11, Vasant Vihar, New Delhi-110057 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 22.08.2022 calling upon M/s Hi Tech Knitting Corporation (Borrower), Sh. Harjinder Singh Oberoi (Proprietor and Guarantor), Sh. Gurmeet Singh Oberoi (Guarantor), Smt. Rashpal Kaur Oberoi (Guarantor), Sh. Harjinder Singh Oberoi Legal heir of Late Sh. Gurdit Singh Oberoi (Guarantor) and Sh. Harjinder Singh Oberoi on behalf of other legal heirs of Late Sh. Gurdit Singh Oberoi (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.6.40.33.650.84 (ODP) and Rs. 2.76.19.155.50 (LAP) as on 17.08.2022 with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower / guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement)

Rules, 2002 on this 15th day of November 2022. The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank, D-6 Shopping Center 11, Vasant Vihar, New Delhi, Delhi-110057 for an amount of Rs.6,40,33,650.84 (ODP) and Rs. 2,76,19,155.50 (LAP) as on

17.08.2022 with costs, etc. thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property Property Owned By: M/s Hi Tech Knitting Corporation through its proprietor Sh. Harjinder

Singh Oberoi All that part and parcel of Equitable mortgage of Industrial land & Building built on a Plot area 3 Bigha, 18 Biswansi, measuring 9211.125 Sq. Yards out of Khasra No. 1565/956/2/1, Mauza Khandsa, Near Haryana Roadways Workshop, Tehsil & Distt Gurgaon, Haryana.

Date: 15.11.2022, Place: Vasant Vihar Authorized Officer, Punjab & Sind Bank

'IMPORTANT'

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

E-Auction Sale Notice under IBC, 2016

M/s. Shree Om Enterprises Private Limited (in Liquidation) CIN: U51495DL1977PTC008586 Regd. Office (as per MCA records): B-11/2, Back Side Ground Floor Okhla Industrial Area, Phase II

New Delhi South Delhi-110020

Liquidator's Office: 118, Himvarsha Apartments, 103, I P Extension, New Delhi - 110092

E-AUCTION SALE NOTICE

Email ID: liquidator.soepl@gmail.com, archanafca@gmail.com Sale of assets of Corporate Debtor forming part of Liquidation Estate by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-III vide order dated

24.05.2022 in C.P. (IB) - 2611 of 2019. The sale will be done by the undersigned through e auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net Date: 22nd December, 2022 Date and Time of E-Auction Time: 1.00 PM to 2.00 PM (with unlimited

Last Date for submission of Eligibility Documents Inspection Date and Time	2nd December, 2022 3rd December, 2022 to 17th December, 2022 with prior intimation to the liquidator.						
Last Date for submission of Bid Document and EMD	19th Dec	cember, 2022					
Assets	Reserve Price (INR)	EMD Amount and Documents submission deadline	Bid Incremental Value				

situated and installed at Plot 2-B. Udyog Vihar. ECO Tech-II, Greater NOIDA, Uttar Pradesh - 201306. Printing Machine (Lithrone S40/LS-440 by Komori Rs.8,65,800/-Corporation 2008 Model), Rs.86.58.000/-On or before Rs. 50,000/-

Miscellaneous Assets at Greater NOIDA, Uttar Pradesh - 201306 Terms & Conditions of the sale is as under:

Furniture & Fixtures and other

Date: 16.11.2022 Place: Delhi

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider M/s E-Procurement Technologies Ltd. (https://ncltauction.auctiontiger.net) Documents and EMD shall be submitted to Liquidator through email and hard copy in the

format prescribed in the Auction Document on or before 19th December, 2022. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website https://ncltauction.auctiontiger.net It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any

kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and / or not to accept and / or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability.

Archana Singhal Liquidator In the matter of Shree Om Enterprises Private Limited Reg. No. - IBBI/IPA-001/IP-P02036/2020-21/13116 Place: New Delhi

Date: 14.11.2022

19th December, 2022

Asset Recovery Branch, No.6, 3rd Floor, Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Ph: 011-35008283 Mob: 7823919520 E-AUCTION NOTICE: E-AUCTION ON 21.12.2022 PUBLIC NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER

-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financia Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below

SARFAESI ACT, 2002

described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, The KarurVysya Bank Ltd, Symbolic possession has been taken by the Authorised Officer of The KarurVysya Bank Ltd., Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", "without recourse", and "Whatever there is", and "Without recourse" as per given details below

S. No.	Name of Borrower	Lending Branch		property	(in Rs.)	(in Rs.)	/ Ph.No. / Email
1	M/s. Agro Spice Trading Co.	Delhi Chandni Chowk	Entire residential building at B-203, Ramprastha Colony,	Residential Land & building	Rs 4,55,00,000/-	Rs 45,50,000/-	Rajesh Thakkar 9910972101 rajeshthakkar@
2	M/s Khanna Brothers		Ghaziabad – 201011 admeasuring				kvbmail.com
3	Hitesh Khanna		approximately 351 sq. yrds				

Details of borrowers: SI.Nos.1: Chandni Chowk, Delhi Branch Name of Borrowers - (1) M/S Agro Spice Trading Co Per Prop : Mr. Amit Khanna 511/1, Katra Ishwar Bhawan, Khar Baoli, Delhi - 110 006 (2) (2) Mrs Shakshi Khanna, W/o Mr Amit Khanna, R/O 511/1, Katra Ishwar Bhawan, Khar Baoli, Delhi - 110 006 (3) Mr Hitesh Khanna, S/o Late Sh. Avinash Khanna, R/O C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095 (4) Mr Amit Khanna, S/o Late Sh. Avinash Khanna, R/O C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095 (5) Si Shivali Khanna, W/o Hitesh Khanna, C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095. The Total due: As on 31.10.2022 is Rs. 62,97,907.64 (Rupees Sixty Two Lakh Ninety Seven Thousand Nine hundred Seven and

Paisa Sixty Four only) with further interest, Costs, other charges and expenses thereon SI.Nos.2: Chandni Chowk Branch Name of Borrower - (1) M/s Khanna Brothers Per Prop : Mr. Hitesh Khanna,511/1 Katra Ishwar Bhawan, Khari Baoli, Delhi - 110 006 (2) Mr. Hitesh Khanna, S/o Late Sh. Avinash Khanna, R/o C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095 (3) Mrs. Shakshi Khanna, W/o Mr Amit Khanna R/o C- 268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095 (4) Mr Amit Khanna, S/o Late Sh. Avinash Khanna, R/o C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I,Delhi-110095 (5) Smt Shivali Khanna, W/o Hitesh Khanna, C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095 The Total due: As on 31.10.2022 is Rs 95,176.90 (Rupees Ninety Five Thousand One Hundred Seventy Six and paisa Ninety Only) with further interest, Costs, other charges and expenses thereon.

Sl.Nos.3: Chandni Chowk Branch Name of Borrower – (1) Mr. Hitesh Khanna, S/o Late Sh. Avinash Khanna, R/o C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi- 110095 Also at: B-203, Block-B, Ramprastha Colony, Ghaziabad- 201 011, Uttar Pradesh (2) Mr Amit Khanna, S/o Late Sh. Avinash Khanna, R/O C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095

Also at: B-203, Block-B, Ramprastha Colony, Ghaziabad- 201 011, Uttar Pradesh (3) Smt Shivali Verma, W/o Hitesh Khanna, C-268, 3rd Floor, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095 (4) Mrs. Shakshi Khanna, W/o Mr Amit Khanna. R/o 511/1, Katra Ishwar Bhawan, Khari Baoli, Delhi – 110 006 The Total due: As on 29.10.2022 is Rs. 2,15,76,818.15 (Rs Two Crore Fifteen Lakh Seventy Six Thousand Eight Hundred Eighteen and Paisa Fifteen Only) with further interest, Costs, other charges and expenses thereon.

Mortgage Asset: Entire residential building at B-203, Ramprastha Colony, Ghaziabad - 201011 admeasuring approximately 351 sq. yrds and bounded as under: North: Road 30 feet South: Service Lane, East: Plot No: 204 West: Road, Reserve Price - Rs. 4,55,00,000.00 EMD - Rs. 45,50,000.00 All working Days -From 17 11 2022 to 17 12 2022

Inspection of the Asset	between 11.00 am to 5.00 pm
Last date and time for submitting online Tender & Application Forms	Date: 20.12.2022 Time: by 5 pm
Date and Time of E-Auction	The E-Auction will take place through portal On21.12.2022 between11.00 a.m to 11.30 a.m. with unlimited extensions of 5 minutes each till sale is concluded.
Nodal Bank account Name	The Karur Vysya Bank Ltd, Central office in favour of above accounts Account No:1101351000000973, IFSC Code: KVBL0001101.
Contact Person & Phone No	As mentioned above

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in our Bank's/ Secured Creditor' website i.ewww.kvb.co.in/Property Under Auction andalso at the web portal www.eauctions.samil.in of our e auction service provider M/s. ShriramAutomallIndia Ltd. Prior Encumbrance - NIL (Brought to the knowledge of Bank)

Statutory 30 days' Notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act, 2002 The borrower/s and guarantor/s are hereby notified to pay the dues as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, failing which the Schedule property will be

auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost. Place: Delhi Date: 17.11.2022

Sd/- FOR THE KARUR VYSYA BANK LTD CHIEF MANAGER&AUTHORISED OFFICER

इंडियन बैंक **Indian Bank** ALLAHABAD

🛆 इलाहाबाद

E-Auction **Sale Notice**

[Appendix IV-A (See Proviso to Rule 8(6)] Sale Notice for Sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that

the below described immovable Property/ies mortgaged/charged to the Indian Bank, secured Creditor, the Physical/Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised officer of Indian Bank, secured Creditor, will be sold on "As is Where is" "," As is what is", and "Whatever there is" on 14.12.2022 between 10:00 AM TO 02:00 PM, for the recovery of dues to the Indian Bank, Secured Creditor from the following Borrower(s) and Guarantor(s). The Reserve Price and Earnest Money Deposit (EMD) of the respective property/ies is furnishing below. Last Date and Time for submission of EMD almount is . Date 11.12.2022 upto 5:00 PM

Name of the **Details of the Mortgaged** Date of 13(2) Notice Borrower/Mortgagor/ Poss Bld Increase & Outstanding Dues **Property Guarantor & Address.** Amount <u> 1984 Agra Branch (Address: Č-246, Gheves Complex, Kamia Nagar, Agra) Phol</u> Shri Raju Agrawal EWS House No-D-682, Kalindi Vinar, Agraj 🕍 08.06.2018 (Borrower) S/o Shri Ravi Admeasuring 27 Sq Mts, in the Name of 9,26,000/- Rs. 16.47.678/-Shankar Agarwal, Ro-H.no. D-682, Kalindi Vihar Agra- 282006

Raju Agarwal, Boundaries are: East- Plot Rs. 1,00,000/-Rasta 20 Ft. Wide, South-EWS Plot No-667 as on 14.12.2022 + interest Vihar, Agra- 282006. 10.000/-& others exp. Property Id No: IDIB5959RAJU2 Date of E-Auction 14.12.2022 between 10:00 AM to 02:00 PM Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com) of our e auction serviceprovider MST

Ltd to participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESK No. 033-22901004 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status with MSTC Ltd, please contact ibapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapifin@mstcecommerce.com. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit:

https://ibapi.in and for clarifications related to this portal, please contact help line number '18001025026' and '011-41106131'. Bidder are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com.

Date:- 17.11.2022 Place:- Agra **Authorized Officer**

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

Registered Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027, Landline: (91)-11- 45613885 • CIN: L74899DL1995PLC064005 • Website: http://www.newlightapparels.com • E-Mail: newlight.apparels@gmail.com STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED RESULT FOR THE QUARTER/PERIOD ENDED 30th SEPTEMBER 2021

		`	Quarter En	ded		ar Ended	Year Ended on	
Sr. No.	Particulars	30.09.2022 (Un-Audited)	30.06.2022 (Un-Audited)	30.09.2021 (Un-Audited)	30.09.2022 (Un-Audited)	30.09.2021 (Un-Audited)	31.03.2022 (Audited)	
T	Revenue							
Ш	Revenue from Operations	50.89	20.07	24.70	70.96	28.34	618.53	
Ш	Other Income	8.47	13.74	0.00	22.21	0.00		
	Total Revenue (I + II)	59.36	33.81	24.70	93.17	28.34	618.63	
۷	Expenses							
	Purchase of Stock in Trade	44.54	20.37	12.40	64.91	18.81	568.79	
	(Increase)/decrease in inventories of traded goods	6.05	(10.00)	10.00	(3.95)	6.26		
	Employee benefit expenses	4.24	5.28	0.48	9.52	1.10		
	Rent	0.75	0.75	0.00	1.50	0.00		
	Finance Costs	3.62	5.95	0.55	9.57	1.08		
	Depreciation & amortizations expenses	0.90	0.97	0.11	1.87	0.22	5.82	
	Other expenses	17.71	15.90	0.17	33.62	0.84	19.36	
	Total expenses (IV)	77.82	39.23	23.72	117.05	28.31	782.33	
٧ <u> </u>	Profit/(Loss) Before Exceptional items and tax	(18.46)	(5.42)	0.98	(23.88)	0.04	(163.70)	
4	Exceptional items		-		-	-	-	
11	Profit/(Loss) BeforeTax	(18.46)	(5.42)	0.98	(23.88)	0.04	(163.70)	
Ш	Tax Expense	-	-	0.26	-	0.01	(42.56)	
K	Profit/(Loss) After Tax	(18.46)	(5.42)	0.73	(23.88)	0.03	(121.14)	
(Other Comperehensive Income:-							
	i. Item that will not reclassified to statement of profit & loss							
	Re-measurement Gains /(Losses) on Defined Benefit Plans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ΧI	Total Comprehensive Income for the Year (IX - X)	(18.46)	(5.42)	0.73	(23.88)	0.03	(121.14)	
Ш	Paid up Equity Share Capital (Equity Shares of Rs.10/- each)	219.62	219.62	219.62	219.62	219.62	219.62	
Ш	Earnings Per Equity Share							
	a.) Basic (Rs.)	(0.84)	(0.25)	0.33	\ /	0.01	(5.52)	
-31	b.) Diluted (Rs.)	(0.84)	(0.25)	0.33	(10.87)	0.01	(5.52)	
(111	Earnig before depreciation and amortisation expenses, Finance Costs, Exceptional Item, tax expenses (EBITDA)	(13.93)	1.50	1.64	(12.43)	1.33	(138.02)	

For and On behalf of Board of Directors of NEW LIGHT APPARELS LIMITED

Sandeep Makkad, Managing Director (DIN: 01112423)

(All Amounts are in Rs. Lakhs unless otherwise stated)

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	26692445	HOME 1. VINOD KUMAR YADAV 2. LALITA DEVI	22.10.2022	3,65,398.07/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FLAT NO. D- 001, MEASURING 558 SQ. FT (SUPER BUILT-UP AREA) AND 433.90 SQ. FT. (CARPET AREA AS PER RERA), PROJECT KNOWN AS "SUBH GRAH", SITUATED AT VILLAGE & TEHSIL: NEEMRANA, SILARPUR ROAD, DISTRICT: ALWAR (RAJ.), AND BOUNDED AS:	
						EAST: LAND OF OTHER, WEST: 18 MTRS. WIDE ROAD & LAND OF OTHER, NORTH: LAND OF OTHER, SOUTH: PROPOSED ROAD

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

> **Authorized Officer** IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

> > DEMAND NOTICE

IDFC FIRST Bank Limited

BORROWER/S/

LOAN

Date: 17.11.2022

Place: RAJASTHAN

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

IDFC FIRST

DATE AND

Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031. TEL: +91 44 4564 4000 | FAX: +91 44 4564 4022.

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

Whereas the undersigned being the authorized officer of IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notices calling upon the Borrower/ Co-borrowers and Guarantors to repay the amount mentioned in the demand notice appended below within 60 days from the date of receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till payment/realization.

The Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this notice.

ACCOUNT NUMBER	CO-BORROWER/S & GUARANTORS NAME	DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTIES	DATE	OUTSTANDING AMOUNT (RS.)	TYPE OF POSSESSION TAKEN
11730202 & 21038668	1. Ajay Garg 2.Deepty Garg	All The Piece And Parcel Of The Property Consisting Of Property Situated On Third Floor Plot No. 44, Khasra No.37, Panchwati Colony Village, Mahma Sarai, Pargana Loni, Tehsil & Distt Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010, Admeasuring 66 Sq. Mtr & Having A Covered Area Of 53.51 Sq.Mts, And Bounded As:East: Plot No.42 West: Road 24 Feet Wide North: Plot No.43 South: Plot No. 45	20-04-2021	Rs. 21,34,146.68/-	14-11-2022 Physical Possession
13490418	1.Mr.Anwaar Kureshi 2.Mrs.Ruksana Iqbal	All The Piece And Parcel Of The Property Consisting Of Flat Bearing No.Tf-2, Having Carpet Area Of Approx 430.56 Sq. Ft., And Covered Area 40 Sq. Mt., M.I.G Type, Back Side, Third Floor (Without Roof Rights), Part Of Plot No.1/209 Situated At Sector-1, Vasundhara Ghaziabad Tehsil District Ghaziabad, Uttar Pradesh And Bounded As: East: Road 18 Mtr. Wide West: Plot No.1/198, North: Plot No.1/208 South: Plot No.1/210	11-04-2021	Rs. 20,96,889.10/-	14-11-2022 Physical Possession

The Borrower/ Co-borrowers/ Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount mentioned in the demand notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till payment/realization. **Authorised Officer** Date:14-11-2022

IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

CONSOLIDATED

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED CIN No.: L24239HR1984PLC040797

Place: Ghaziabad.

Regd. Off.: Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 Mtr. Road Dharuhera Rewari HR 123401 Tel: +91-7419885077 | Email: newtimeinfra2010@gmail.com | Website: www.newtimeinfra.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED

STANDALONE

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022 (Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	Q	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
			30.06.2022 (Un- Audited)		30.09.2022 (Un- Audited)		31.03.2022 (Audited)	30.09.2022 (Un- Audited)	30.06.2022 (Un- Audited)	30.09.2021 (Un- Audited)	30.09.2022 (Un- Audited)		31.03.2022 (Audited)	
1.	Total Income from operations	101.50	12.50	_	114.00	2000	:	101.50	12.50	_	114.00		-	
2.	Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptional items and tax	(16.17)	(99.47)	(123.17)	(115.64)	(245.18)	(464.73)	(26.36)	(109.43)	(135.87)	(135.79)	(263.72)	(502.68)	
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(16.17)	(99.47)	(123.17)	(115.64)	(245.18)	(464.73)	(26.36)	(109.43)	(135.87)	(135.79)	(263.72)	(502.68)	
4.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(16.17)	(77.34)	(123.17)	(93.52)	(245.18)	(2,641.64)	(26.36)	(87.31)	(135.87)	(113.67)	(263.72)	(2,679.59)	
5.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(16.17)	(77.34)	(123.17)	(93.52)	(245.18)	(2,641.64)	(26.36)	(87.31)	(135.87)	(113.67)	(263.72)	(2,679.59)	
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & other Comprehensive Income (after tax))	(16.17)	(77.34)	(123.17)	(93.52)	(245.18)	(2,640.38)	(9.64)	(76.74)	(122.13)	(86.38)	(323.98)	(2,781.17)	
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	
8.	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of pervious accounting year	_	6_6	2012 2012 2012		_	770.51	<u> </u>			_	_	6,345.58	
9.	Earnings per Share (Face Value of Re 1/- each) for continuing operations)			Ċ.			-		8			3		
ĵ	(a) Basic	(0.01)	(0.05)	(0.07)	(0.05)	(0.14)	(1.55)	(0.01)	(0.05)	(0.07)	(0.05)	(0.19)	(1.63)	
	(b) Diluted	1995	-		940	100	_	940		_	_		_	

Date: 15/11/2022

Place: New Delhi

1. The above Un-Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 15th November, 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 15th November, 2022.

2. In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory auditor have performed an Limited Review of the standalone and consolidated financial results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2022.

3. This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules

thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended).

4. Exceptional items for the half year represents profit of 20.12 lakhs is belongs to previous year exceptional loss extra booked wrongly, which is reversed during the period. This statement

has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) 109. Previous year figures have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to confirm to the current Period presentations.

As the Company has one Operating Segment and disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.

7. The Company has incurred a net loss of Rs. 16.17 lakhs and Rs.93.52 lakhs for the guarter and period ended September 30, 2022 respectively, and accumulated losses as on September

30, 2022 stand at Rs.5,522.20 lakhs. The Management has considered the possible impact of the losses and disruption caused by restriction imposed to contain COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as on 30th September, 2022. Based on such assumption, it has concluded that none of the assets are likely to be impaired and Company will be able to continue as a going concern for a foreseeable future.

8. During the current guarter the Company has disposed of its investment in two subsidiaries namely Cropbay Real Estate Pvt Ltd & Estaeagro Real Estate Pvt Ltd on 06th September 2022. Accordingly financial results of those subsidiaries have been consolidated till date of disposal.

9. The Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2022 is available on the website of the Company https://www.newtimeinfra.in/ and the website of For and on behalf of Board of Directors

Rai Singh Poonia

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Additional Director & Chief Financial Officer

DIN: 09615705

New Delhi

financialexp.epa

कॉर्पोरेट देनदार का नामः

अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची,

अंतिम तिथिः

इ-निविदा सूचना स. एसए- टीआरडी-2022-23-116 तिथि 15.11.2022 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल विद्युत अभियंता/ट्रैक्शन एवं वितरण शाखा/सलेम मंडल, सलेम-5 द्वारा ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में दी गई निविदा सूचना के अनुसार निम्न कार्यो के लिये ऑन लाइन निविदा आमंत्रित है। सलेम मंडल में कार्यों के लिये ई-निविदा हेतु आवेदन के इच्छुक निविदाकारों/ठेकेदारों को ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में सूचीकरण कराना होगा तथा केवल ऑनलाइन निविदा स्वीकार की जाएगी। ई-निविदा में भागीदारी के लिये डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण प्राप्त करने का दायित्व निविदाकारों/ठेकेदारों का होगा।

क्रम	निविदा	कार्य का	कार्य की अनु.	ईएमडी	
सं.	सं	नाम	मूल्य (रु. लाख में)	राशि (रु.)	
1		सलेम मंडल-हार्ड ड्रॉन ग्रूव्ड कॉपर कॉन्टैक्ट वायर के साथ विस्थापन द्वारा वर्तमान सिल्वर ब्रेज्ड ज्वाइन्ट कॉन्टैक्ट वायर का सुधार।	20.18	40,400	
2	SA-TRD-2021- 22-116-2	सलेम मंडलः कोइल लाइफ कम्प्लीटेड पोर्सलेन स्टे एवं ब्रैकेट इन्स्युलेटर का विस्थापन।	76.18	1,52,400	

क्रिम 'सं. 1 एवं 2 : निविदा प्रपत्र का मुल्य: 0 (निल) क्रम सं. 1 एवं 2: कार्य की पूर्णता अवधि: 6 माह क्रम सं. 1 एवं 2: निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः 16.06.2022 के 14.30 बजे।

उक्त निविदा का सम्पूर्ण विवरण ई-पोर्टल "www.ireps.gov.in" में दी गई है। बोली जमा करने के विवरणों के लिये कृपया वेबसाईट "www.ireps.gov.in" देखें।

उक्त पोर्टल के माध्यम से फ्लोट की गई निविदा के लिये ऑनलाइन बोली डिजीटली हस्ताक्षरित होनी चाहिये। मंडल विद्युत अभियंता, टैक्शन वितरण, सलेम

Follow us on : 📝 twitter.com/GMSRailway

पहचान की अपील



एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नामः नामालूम, पिता का नामः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः 50 वर्ष, लिंगः पुरूष, कदः 5 फुट 7 इंच, रंगः गेहुँआ, पहनावाः हल्के हरे रंग की कमीज और काले रंग

की पैन्ट पहने है, का शव, अम्बेडकर पार्क, सनलाईट कॉलोनी-।।, नई दिल्ली में दिनांक 11.11.2022 को दोपहर 03:36 बजे थाना सन लाईट कॉलोनी, दिल्ली के क्षेत्र में पाया गया। इस संदर्भ में DD No. 82A dated 11.11.2022 के तहत थाना सन लाईट कॉलोनी, दिल्ली में

रिपोर्ट दर्ज है। अगर किसी को इस शव के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृप्या निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

थाना सन लाईट कॉलोनी, दिल्ली DP/2888/SE/2022 फोन नं: 011- 26348324, 8750870928

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शास्त्राः गीता कॉलोनी (ही 0626) व्लॉक-1, पुराना गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031, ई-मेलः d0626@psb.co.in [ानयम 8(1)] सांकातक कब्जा सूचना (अचल संपात क लिय)

सा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200: के अंतर्गत पंजाब एडं सिधा बैका, गीता कॉलोनी शाखा, दिल्ली के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पटित धारा 13(2) तथा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 2.6.2022 जारी कर 1 (ऋणधारक) श्रीमती आशा सेठ. पत्नी सुनील कुमार, एच.नं. 1852, लक्ष्मीबाई नगर, एनडीएमसी, सरोजिनी भगर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110023, साथ ही: एच.नं. 356/बी, हीडीए फ्लैटस, गाजीपर, दिल्ली-110091, साथ ही: फ्लैट नं, युजीएफ 1, प्लाट नं, सी-93, आवासीय कॉलोनी, गंगा विहार, ग्राम सैट्ल्लाबाद परमणा लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. 2. (सह-ऋणधारक) श्री आशीय कुमार, पुत्र श्री सुनील कुमार एच.नं 1852. लक्ष्मीबार्ड नगर, एनडीएमसी, सरोजिनी नगर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110023 तथा साथ ही फ्लैट नं. युजीएफ 1, प्लाट नं. सी-93, आवासीय कॉलोनी, गंगा विहार, ग्राम सैद्रुल्लाबाद, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि 31.5.2021 को रु. 847619.06/- (रु. आट लाख सैंतालिस हजार छ: सी उन्नीस एवं पैसे छ: मात्र) वापस लीटाने का

ऋणधारक तथा गारंटरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदहारा ऋणधारक एवं गारंटरों तथा आम जनता को स्थित किया जाता है कि आज, 15 नयम्बर, 2022 को अधोहरताक्षरी ने उक्त नियमायली के नियम 8 एवं 9 के साथ पटित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति, स्टॉक एवं वाहनों का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतके किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.5.2021 को रु. 847619.06/-(क. आट लाख सँतालिस हजार छ: सौ उन्नीस एवं पैसे छ: मात्र) तथा उस पर उपचित्र ब्याज/अन्य चार्जेज के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, गीता कॉलोनी शास्त्रा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

(पंजाब एंड सिंघ बैंक, गीता कॉलोनी शाखा, दिल्ली के पास बंधक) गिरवी सम्पत्ति का विवरणः फ्लैट मं. यूजीएफ 1, ऊपरी भू तल, प्लॉट मं. सी-93, आवासीय कॉलोमी, गंग विहार, ग्राम सैदल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. टाइटल डीड का विचरण: उप-रिजस्ट्रार, गाजियाबाद, उ.प्र. में बुक नं. 1, वॉल. नं. 31414, पेज नं. 59 रं

120 में पंजीकरण सं. 6515 के माध्यम से टाइटल डीड तिथि 11,4,2016 सम्पत्ति की चीह़दी: पूर्व: 30 फीट चीहा रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. सी-94, उत्तर: 30 फीट चीड़ा रोड, दक्षिण

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैक

विश्विः 15.11.2022 स्थानः गाजियासाद

पंजाब एण्ड सिंध बेंक

Punjab & Sind Bank

शाखाः गीता कॉलोनी (डी 0626) ब्लॉक-1, पुराना गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031,

‡-भेल: d0626@psb.co.in

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200, के अंतर्गत पंजाब एवं सिधा बैंक, गीता कॉलोनी शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथ प्रतिभृति हित (प्रचर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) तथा 13(12 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 28.7.2022 जारी कर 1 (ऋणधारक) श्रीमती मीन्, पत्नी श्री नीरज शर्मा, एच.नं. 1/2624ए, गली नं. 5, लोनी रोह, राम नगर, शाहदरा दिल्ली-110032, साथ ही: एच.नं. 1/2630, प्लॉट नं. 66, खसरा नं. 138/2, तीसरा तल, ग्राम सिकदरपुर गली मं. ४, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032, 2. (सह-ऋणधारक) श्री नीरज कुमार, पुत्र श्री राम आनंद एच.नं. 1/2624ए, गली नं. 5, लोनी रोड, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032, साथ ही: एच.नं. 1/2630 प्लॉट नं. 66, खसरा नं. 138/2, तीसरा तल, ग्राम सिकंदरपर, गली नं. 4, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि 30,7,2022 को म 2140768.66/- (रु. इक्कीस लाख चालीस हजार सात सौ अडसट एवं पैसे क्रियासट मात्र) वापस लौटाने

ऋणधारक तथा गारंटरों इस राशि को वापस लीटाने में विफल रहे, अतः एतट्डारा ऋणधारक एवं गारंटरों तथ आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 15 नवम्बर, 2022 को अधोहस्ताक्षरों ने उक्त नियमायली वे नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति, स्टॉक एवं चाहनों का सांकेतिक कथ्जा कर लिया है विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पन्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पतियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.7,2022 को रु. 2140768.66/ (रू. इक्कीस लाख चालीस हजार सात सी अडसट एवं पैसे छियासट मात्र) तथा उस पर उपचित्र ब्याज/अन चार्जेज के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, गीता कॉलोनी शाखा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

(पंजाब एंड सिंघ बैंक, गीता कॉलोनी शाखा, दिल्ली के पास बंधक) गिरवी सम्पत्ति का विवरण: सम्पत्ति सं. 1/2630, प्लॉट नं. 66, खसरा नं. 138/2, ग्राम सिकदरपुर, गली नं 4, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

टाइटल डीड का विवरण: उप-रिकस्टार IV ए शाहदरा में बक ने. 1. वॉल ने. 1827, पेज 1 से 9 में पंजीकरण सं. 4663 के माध्यम से टाइटल डीड तिथि 26.11.2014

सम्पत्ति की चीहरी: पूर्व: 15 फीट चीडा रोड, पश्चिम: सुरेश कुमार की सम्पत्ति, उत्तर: श्री सुभाष की सम्पत्ति दक्षिणः श्री अनिल की सम्पत्ति।

तिथि: 15.11.2022 स्थान: दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, पंजाब एंड सिध बैक

पंजाब एण्ड सिंघ बैंक Punjab & Sind Bank

> डी-6, शॉपिंग सेम्टर-2, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 फोम: 011-26141733, ई-मेल: d0487@psb.co.in

परिशिष्ट IV [नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत पंजाब एडं सिंध बैंक, डी-6, शॉपिंग सेन्टर-2, खसंत बिहार, नई दिल्ली-110057 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 22.8.2022 जारी कर मै. हाईटेक निटिंग कॉर्पोरेशन (ऋणधारक), श्री हरजिन्दर सिंह ओबराय (प्रॉप्राइटर एवं गारंटर) श्री गुरमीत सिंह ओबराय (गारंटर), श्रीमती रशपाल कीर ओबराय (गारंटर), श्री हरजिंग सिंह ओबराय, स्व. गुरदीप सिंह के अन्य कानुनी उत्तराधिकारी (गारंटर) तथा स्व. श्री गुरदीप सिंह ओबराय के अन्य उत्तराधिकारियों की ओर से श्री हरजिन्दर सिंह ओबराय (गारंटर) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 17.8.2022 को रु. 64033650.84 (ओडीपी) तथा रु. 27619155.50 (एलएपी) के साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विकल रहे, अतः एतदहारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 15 नवम्बर, 2022 को अधोहस्ताश्वरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 17.8.2022 को रु. 64033650.84 (ओडीपी) तथा रु. 27619155.50 (एलएपी) के साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, डी-6, शॉपिंग सेन्टर 11, वसंत विहार, नई दिल्ली, दिल्ली-110057 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के स्वामी: मैं. हाई टेक निर्दिग कॉर्पोरेशन, हारा उसके प्रॉपाईटर श्री हरजिन्दर सिंह ओवराथ प्लॉट एरिया 3 बीघा, 18 बिसवंसी, माप 9211.125 वर्ग याईस, खसरा नं. 1565/956/2/1, मीजा खंडसा, हरण्या रोडवेज वर्कशॉप के निकट, तहसील एवं किला गृहगाँव, हरियाणा में निर्मित औद्योगिक भवन एवं

भाम के इक्विटैयल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्सा। तिथि: 15.11.2022 स्थान: बसंत विहार

प्रपत्र-जी अल्टेक इफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हेतु रुचि की अमिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)

विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के तहत प्रासंगिक विवरण | पैन / सीआईएन / एलएलपी नं. के साथ अल्टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सीआईएनः U70109DL2006PTC155875

वर्ष २०१९–२०२० का लेखापरीक्षित तलनपञ्

https://insolvencyandbankruptcy.in/ पर उपलब्ध है।

सैदुलाजैब, साकेत-डी, ब्लॉक के सामने , नई दिल्ली लॉट नंबर ई—535, ई—666, 661 और 662, चोपांकी संपत्तियां स्थित हैं: भिवाडी, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी, त्पाद —फेब्रिकेशन - डिएरेटर्स आदि उत्पादों / सेवाओं की मात्रा और मूल्य अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।

प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं: आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है: जारी करने की तिथिः

> श्री आनंद सोनभद्र पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00739/2017-2018/11771 ई-10 ए, कैलाश कॉलोनी, निचला भूतल, ग्रेटर कैलाश—I, नई दिल्ली, 110048 अल्टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में समाधान पेशेवर 17/11/2022 नई दिल्ली

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

शास्ताः गीता कॉलोनी (डी 0626) ब्लॉक-1, पुराना गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031,

हैं-मेल: d0626@psb.co.in ानयम 8(1)] साकातक कब्जा सूचना (अचल स

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब एडं सिंध बैंक, गीता कॉलोनी शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्शन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पटित धारा 13(2) तथा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताश्वरी ने मांग सुचना तिथि 28.7.2022 जारी कर 1. (ऋणधारक) श्री अकरम अली, पुत्र मुबीन अली मकान सं. 3666, मैन कुतव रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006, साथ ही: ई-599, गली मं. 22, ई-च्लॉक, मुस्तफाबाद एक्स्टेंशन, दिल्ली-110094, साथ ही: फ्लैट नं. एसएफ-2, एमआईजी दूसरा तल, लेफ्ट हैंड फ्रान्ट साइड, प्लॉट नं. बी-9, ग्राम सैद्ल्लाबाद, गंगा विहार, लोनी, माजिथाबाद, उ.प्र.-201102, 2. (सह-ऋणधारक) श्रीमती मुमताज जापान, पत्नी अकरम अली मकान सं. 3666, मैन कुतव रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006, साथ ही: ई-599, गली नं. 22, ई-ब्लॉक, (स्तफाबाद एक्स्टेंशन, दिल्ली-110094, साथ ही: फ्लैट नं. एसएफ-2, एमआईजी दूसरा तल, लेफ्ट हैंड फ्रान्ट साइड, प्लॉट नं. बी-9, आम सैदल्लाबाद, गंगा विहार, लोनी, गानिधाबाद, उ.प्र.-201102 को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 30.6.2022 को रु. 1636788.75/-(रु. सोलह लाख छत्तीस हजार सात सौ अदासी एवं पैसे पचहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक तथा गारंटरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदहारा ऋणधारक एवं गारंटरों तथा आम जनता को सचित्र किया जाता है कि आज, 15 नवम्बर, 2022 को अधोहस्थाश्वरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे यणित सम्पत्ति, स्टॉक एयं याहनों का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतके किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.6.2022 को रू. 1636788.75/-

अचल सम्पत्ति का विवरण (पंजाब एंड सिंध बैंक, गीता कॉलोनी जाखा, दिल्ली के पास बंधक) गिरवी सम्पत्ति का विवरणः फ्लैट नं. एसएफ-2, एफआईजी, इसरा तल, लेफ्ट हैंड फ्रान्ट साइड, प्लॉट नं.

(र. सोलह लाख छत्तीस हजार सात सौ अठासी एवं पैसे पचहत्तर मात्र) तथा उस पर उपचित स्थाज/अन्य

चार्जेंज के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, गीता कॉलोनी शाखा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

बी-9. ग्राम सैदल्लाबाद गंगा विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. टाइटल डीड का विवरण: उप-रिनस्टार IV गाजियाबाद में बुक नं. 1, वॉल.नं. 34223, पेज 303 से 366 में पंजीकरण सं. 16657 के माध्यम से टाइटल डीड तिथि 28.9.2017 सम्पत्ति की चौहरी: पर्व: कॉमन पैसेन एवं फ्लैट नं, एसएफ 03, पश्चिम: रोड़, उत्तर: प्लॉट नं, ची-8, दक्षिण: तिश्वि: 15.11.2022 स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैक

Criminal Courts, Ludhiana in The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Date: 21-12-2022 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Mohd Irfan CNR NO: PBLD03-036211-2019 Publication Issued To: Mohd Irfan Address- S/o Ashfak R/o Hno 162 Dalapat Pur Ashnik Ps Munda Pandey Moradabad 244104

Whereas it has proved to the satisfaction

of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 21-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_not

Criminal Courts, Ludhiana

ce&district=ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

M/s Kulkarni Enterprises CNR NO: PBLD03-049705-2019 Publication Issued To: M/s Kulkarni Enterprises Address- Through Prop. Manohar Venkatesherao Kulkarni Sr No 29 Pl No 117 Manmohan Ap Nagar

Dhankwadi Distt. Pune Maharashtra Manohar Venkatesherao Kulkarni Prop Of M/s Kulkarni Enterprises Sr No 29 PI No 117 Manmohan Ap Nagar Dhankwadi Distt Pune 411043 Maharashtra Whereas it has proved to the satisfaction of this

ourt that you, the above named accused/accused ersons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally perfore this court on 19-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default in your part to appear as directed above the bove said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&dis

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana The Court Of Ms Divya Sharma JMIC

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

CNR NO: PBLD03-049702-2019 Publication Issued To: Akbar Anwar Khan Address- Prop M/s A One Style In Furniture Sr No 56 2 Shivnerinagar Lane No 15 Kondhwa Opp Hanuman Mandir Pune Maharsahtra 02, M/s A One Style In Furniture Through Its Prop Auth Sign Akbar Anwar Khan Sr No 56 2 Shivnerinagar Lane No 15 Kondhwa Opp Hanuman Mandir Pune 411040

Whereas it has proved to the satisfaction of this ourt that you, the above named accused/accused ersons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default in your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&dis

<u> IMPORTANT</u> copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

punjab national bank ..the name you can BANK upon!

ल शस्त्र केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट—ई, मयूर विहार, फेज—II , दिल्ली—110091 ई-मेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नंबर (कार्या.): 011- 22779758

कब्जा-सुचना ।नियम-४(१) चूंकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित के तहत पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली (पूर्व में एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच के रूप में जाना जाता था), सीएससी, पहली मंजिल पॉकेट-ई, मयूर विहार, फेज-II, दिल्ली-110091 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.08.2022 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें श्रीमती हेम लता पत्नी लक्ष्मी चंद (उधारकर्ता) पता :– ए–1/101, भूतल , डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन–II, भोपुरा, गाजियाबाद (यूपी)–201005 और श्री लक्ष्मी चंद पुत्र मेवा राम (सह– कर्जदार) पता :- ए-1/101, भूतल, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन- II, भोपुरा, गाजियाबाद (यूपी)-201005 को नोटिस में उल्लिखित राशि रु.11,18,121.86/-(रुपये ग्यारह लाख अटारह हजार एक सौ इक्कीस और छियासी पैसे मात्र) (31.07.2022 तक ब्याज सहित) एवं आगे का ब्याज, व्यय और अन्य खर्च, उस पर पूर्ण भूगतान तक माइनस रिकवरी को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उक्त नोटिस की तिथि से/ उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों व भीतर भीतर उक्त राशि का पुनर्भुगतान करने को कहा गया।

उधारकर्ता/गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहे है,अतः उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 नवम्बर 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता/गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ता और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति व साथ किसी भी तरह का लेन–देन पंजाब नेशनल बैंक, बीओ : राधेपुरी, दिल्ली को रु. 11,18,121.86/– (रुपये ग्यारह लाख अठारह हजार एक सौ इक्कीर और छियासी पैसे मात्र) (31.07.2022 तक ब्याज सहित)एवं आगे का ब्याज,व्यय और अन्य खर्च, पूर्ण भुगतान तक उस पर माइनस रिकवरी के प्रभार व

अचल संपत्ति /सम्पत्तियों का विवरण

1) हेम लता पत्नी श्री लक्ष्मी चंद के नाम पर फ्लैट नं. जीएल–4, भूतल पर केवल सीलिंग लेवल तक (बिना छत के), प्लॉट नं. बी–1/37, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन—II, भोपुरा, गाजियाबाद, यू.पी., फ्लैट का सुपर एरिया 41.805 वर्ग मीटर है।

चौहद्दी : पूर्वः प्लॉट नंबर बी–1/38, पश्चिम– 30 फीट रोड , उत्तर– 60 फीट रोड , दक्षिण– प्लॉट नं– बी–1/57

पजाब नैशनल बैक punjab national bank

..the name you can BANK upon! सर्कल शस्त्र केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मयूर विहार, फेज-II , दिल्ली-110091

ई-मेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नंबर (कार्या.): 011- 22779758

चूंकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली (पूर्व में एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच के रूप में जाना जाता था), सीएससी, पहली मंजिल, पॉकेट-ई, मयुर विहार, फेज-II, दिल्ली-110091 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.08.2022 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें श्री राम कृपाल सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह (खाता संख्याः 07676015002707) (उधारकर्ता), निवासीः मकान नंबरः 12, शांति कुंज, पावर हाउस कल्लू पुरा, गाजियाबाद (यूपी.), यहाँ भीः फ्लैट नंबरः एस–3, दूसरी मंजिल, ब्लॉक– ए, विष्णू एन्क्लेव, डासना, गाजियाबाद (यू.पी.) को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 18,48,494.32 / – (रुपये अठारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ चौरानवे और बत्तीस पैसे मात्र) (31.07.2022 तक ब्याज सिहत)एवं आगे का ब्याज, व्यय और अन्य खर्च, उस पर पूर्ण भूगतान तक माइनस रिकवरी को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उक्त नोटिस की तिथि से 🖊 उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भीतर उक्त राशि का पूनर्भूगतान करने को कहा गया। उधारकर्ता / गारंटर राशि का भगतान करने में विफल रहे है.अतः उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने

प्रतिभति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 नवम्बर, 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता / गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के

साथ किसी भी तरह का लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक, बीओ : सूरजमल विहार, दिल्ली को रु. 18,48,494.32 / – (रुपये अठारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ चौरानवे और बत्तीस पैसे मात्र) (31.07.2022 तक ब्याज सहित)एवं आगे का ब्याज,व्यय और अन्य खर्च, पूर्ण भुगतान तक उस पर माइनस रिकवरी के प्रभार के अधीन होगा। अचल संपत्ति / सम्पत्तियों का विवरण

1) फ्लैट नंबर एस-3, दूसरी मंजिल (छत के अधिकार के बिना) एमआईजी फ्लैट, प्लॉट नं. 113, खसरा नंबर 572, ब्लॉक-ए, विष्णु एन्क्लेव, डासना,

(अधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबंधक), (पंजाब नेशनल बेंक) दिनाकः 15.11.2022 स्थानः दिल्ली

CIN:L74899DL1994PLC057941 पंजीकृत कार्यालय: 37. हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली -110092 ईमेलः moongipacs@gmail.com; वेबसाइटः www.moongipa.net; फोनः 011-44457164

पोस्टल बैलेट नोटिस के लिए शुद्धिपत्र

मंगिपा सिक्योरिटीज लिमिटेड ने डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से कछ एजेंडा मदों के लिए सदस्यों की मंजरी लेने के लिए दिनांक 28 अक्टबर, 2022 को नोटिस जार किया था। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित नियमों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों को पहले ही परिचालित किया ज

इस संचार के माध्यम से कम्पनी उक्त पोस्टल बैलट में निम्नलिखित परिवर्तनों को शेयरधारकों के ध्यान में लाना चाहती है।

मद नंबर 2 और 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरण में परिवर्तन

गाजियाबाद (यू.पी.)

1. क्रम संख्या 38 के पैरा VII में, उन प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान जो नीचे उल्लिखित आवंटियों के अंतिम लाभार्थी स्वामी हैं, को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः प्रस्तावित आवंदिती का नाम

2. क्रम सं. 30 के पैरा VIII में जिसमें आर्बीटेती द्वारा धारण की जा सकने वाली पोस्ट प्रेफरेशियल इश्यु कैपिटल के प्रतिशत और प्रेफरेशियल इश्यु के परिणामस्वरूप जार के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो, के विवरण का उल्लेख किया गया है, तो श्री गुरजीव सिंह आनंद की प्री प्रेफरेंशियल होल्डिंग इस प्रकार पढ़ी जाएगी पोस्ट इक्विटी

शेयरहोल्डिंग श्रोयरहोल्डिंग वाले इक्विटी (वारंटों का पूर्ण शेयरों की कन्वर्जन मानते हए 18,000 यानी www.moongipa.net तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। यह शुद्धिपत्र कट-ऑफ तिथिअर्थात शुक्रवार, 21 अक्टूबर, 202 तक सभी पंजीकृत शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी भेजा जायेगा।

स्थान : दिल्ली तिथि : 15 नवम्बर, 2022 सचिन कुमा

(Rs. in Lakhs)

कम्पनी संचिव

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Off.: Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 Mtr. Road Dharuhera Rewari HR 123401 Tel: +91-7419885077 | Email: newtimeinfra2010@gmail.com | Website: www.newtimeinfra.in

CIN No.: L24239HR1984PLC040797

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

STANDALONE CONSOLIDATED Quarter Ended Quarter Ended **Particulars** Half Year Ended Half Year Ended Year Ended Year Ended 31.03.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2021 31.03.2022 (Un- Audited) (Un- Audited) 'Un- Audited) I(Un- Audited) I (Un- Audited) | (Un- Audited) (Un- Audited) (Audited) (Un- Audited) Un-Audited) (Audited) 12.50 Total Income from operations 101.50 114.00 101.50 12.50 114.00 Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptional items (99.47)(123.17)(115.64)(245.18)(464.73)(26.36)(109.43)(135.87)(135.79)(263.72)(502.68)(16.17)Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) (16.17)(99.47)(123.17)(115.64)(245.18)(464.73)(26.36)(109.43)(135.87)(135.79)(263.72)(502.68)Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) (16.17)(77.34)(123.17)(93.52)(245.18)(2.641.64)(26.36)(87.31)(135.87)(113.67)(263.72) (2,679.59) Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or (123.17)(245.18) (2.641.64) (263.72) (2,679.59) extraordinary items) (16.17)(77.34)(93.52)(26.36)(87.31)(135.87)(113.67)Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after (16.17) | (77.34) | (123.17) | (93.52) | (245.18) | (2,640.38) | (9.64)(76.74) (122.13) (86.38) tax) & other Comprehensive Income (after tax)) (323.98) (2,781.17) Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each) 1,703.46 | 1,703.46 | 1,703.46 | 1,703.46 | 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 1,703.46 Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of pervious accounting year 6,345.58 770.51 Earnings per Share (Face Value of Re 1/- each) for continuing operations) (a) Basic (0.01)(0.05)(0.07)(0.05)(0.14)(1.55)(0.01)(0.05)(0.07)(0.05)(0.19)(1.63)(b) Diluted

Notes to financial results:

The above Un-Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 15th November, 2022 and subsequently have been approved by the Board of

Directors of the company at their meeting held on 15th November, 2022. 2. In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory auditor have performed an Limited

Review of the standalone and consolidated financial results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2022. 3. This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules

thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended). Exceptional items for the half year represents profit of 20.12 lakhs is belongs to previous year exceptional loss extra booked wrongly, which is reversed during the period. This statement

has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) 109.

5. Previous year figures have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to confirm to the current Period presentations.

As the Company has one Operating Segment and disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable. 7. The Company has incurred a net loss of Rs. 16.17 lakhs and Rs.93.52 lakhs for the guarter and period ended September 30, 2022 respectively, and accumulated losses as on September 30, 2022 stand at Rs.5,522.20 lakhs. The Management has considered the possible impact of the losses and disruption caused by restriction imposed to contain COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as on 30th September, 2022. Based on such assumption, it has concluded that

none of the assets are likely to be impaired and Company will be able to continue as a going concern for a foreseeable future. During the current quarter the Company has disposed of its investment in two subsidiaries namely Cropbay Real Estate Pvt Ltd & Estaeagro Real Estate Pvt Ltd on 06th September 2022. Accordingly financial results of those subsidiaries have been consolidated till date of disposal.

The Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2022 is available on the website of the Company https://www.newtimeinfra.in/ and the website of For and on behalf of Board of Directors

> NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED Sd/-

> > Raj Singh Poonia

Additional Director & Chief Financial Officer DIN: 09615705

www.readwhere.com

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैक

Date: 15/11/2022

Place: New Delhi













